



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्रसाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II-खण्ड 3-उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्रधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

---

सं० 297] नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 24, 1965/अग्राहायण 3, 1887

No. 297] NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 24, 1965/AGRAHAYANA 3, 1887

---

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed  
as a separate compilation.

---

MINISTRY OF COMMERCE

ORDER

EXPORT TRADE CONTROL

New Delhi, the 24th November 1965

S.O. 3704.—In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Imports and Exports (Control) Act, 1947 (18 of 1947), the Central Government hereby makes the following further amendment to the Exports (Control) Order, 1962, namely:—

In Part B of Schedule I to the said Order, after entry (r) of Item 1(III), the following entry shall be added:—

“(s) Deer Musk.”

[No. E(C)O, 1962/AM(92).]

P. SABANAYAGAM,  
Chief Controller of Imports & Exports.

